



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1933 (श0)

(सं0 पटना 652) पटना, बृहस्पतिवार, 17 नवम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

26 अगस्त 2011

सं0 22/नि0सि0(वीर0)-7-13/2006/1085—श्री विजय कुमार सिन्हा, (निलंबित) कार्यपालक अभियन्ता, पश्चिमी कोशी तटबंध प्रमण्डल, निर्मली के द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि में कराये गये कटाव निरोधक कार्य में बरती गयी अनियमितताओं की जांच उड़नदस्ता से करायी गयी। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त योजनाओं का कार्य असंतोषप्रद एवं विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं पाये जाने आदि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0 261, दिनांक 20 मार्च 2007 से श्री विजय कुमार सिन्हा को निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संकल्प-सह-ज्ञाप सं0 350, दिनांक 10 अपील 2007 से संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार एवं विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण निलंबन से मुक्त करते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार का उक्त निर्णय श्री विजय कुमार सिन्हा (निलंबित) कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
भरत झा,  
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 652-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>